

राष्ट्रीय ध्वज, चिन्ह, गान व् गीत - सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

Q.1 : राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई-चौड़ाई का अनुपात क्या है ?

Answer :3:2 (3 लंबाई 2 चौड़ाई)

Q.2 : राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं ?

Answer :24 तीलियाँ

Q.3 : राष्ट्रीय ध्वज के समान अनुपात वाली तीन आड़ी पट्टियाँ किस रंग की हैं ?

Answer :केसरिया, सफेद व् हरे रंग की

Q.4 : संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था ?

Answer :22 जुलाई, 1947 को

Q.5 : राष्ट्रीय ध्वज के लिए कैसा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है ?

Answer :हथकरघा खादी (सूती या रेशमी)

Q.6 : झंडे में नील रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र किसका प्रतिक है ?

Answer :धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है

Q.7 : ध्वज के सबसे ऊपरी गहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक है ?

Answer :जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक

Q.8 : ध्वज के बीच में सफेद रंग किसका प्रतीक होता है ?

Answer :सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक

Q.9 : ध्वज के सबसे नीचे गहरा हरा रंग किसका प्रतिक होता है ?

Answer :जीवन एवं समृद्धि का प्रतिक

Q.10 : किस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी फहराया जा सकता है ?

Answer :15 अगस्त और 26 जनवरी को (सामान्यतः राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों पर फहराया नहीं जा सकता)

Q.11 : झंडे (तिरंगा) को भारत की महिलाओं को ओर से राष्ट्र को किस तिथि को संविधान सभा के अर्द्ध-रात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था ?

Answer : 14 अगस्त, 1947 को

Q.12 : राष्ट्रीय ध्वज के महत्व बताएं ?

Answer : ध्वज को झुकाना नहीं चाहिए, इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए | अन्य ध्वजों को इससे नीचे तथा बाईं ओर रखना चाहिए | जुलूस में इसे सबसे आगे सीधे कंधे पर लेकर चलना चाहिए | इसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या दिवसों पर ही करना चाहिए |

Q.13 : भारत का राजचिन्ह क्या है ?

Answer : राजचिन्ह अशोक स्तम्भ

Q.14 : भारत के राजचिन्ह में कुल कितने व कितनी प्रकार के जानवर दर्शाए गए हैं ?

Answer : राजचिन्ह में तीन प्रकार के छः जानवर हैं

Q.15 : राष्ट्रिय चिन्ह के दो भाग हैं – शीर्ष और आधार | शीर्ष पर शेर दिखलाया गया है, वह किसका प्रतिक है ?

Answer : साहस और शक्ति का

Q.16 : राष्ट्रीय चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है | चक्र के दायीं ओर एक बैल है तथा बायीं ओर एक घोड़ा है | वह क्रमशः किसका प्रतिक है ?

Answer : स्फूर्ति का ताकत व गति का

Q.17 : राष्ट्रीय चिन्ह के आधार के बीच में देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' लिखा गया है | यह किस उपनिषद् से लिया गया है ?

Answer : मुण्डकोपनिषद् से

Q.18 : राजचिन्ह के चक्र में 24 तीलियाँ क्या व्यक्त करती हैं ?

Answer : समय की गतिशीलता

Q.19 : 'सत्यमेव जयते' का क्या अर्थ है ?

Answer : सत्य की ही विजय होती है

Q.20 : भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था ?

Answer : 26 जनवरी, 1950 को

Q.21 : राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ – कहाँ होता है ?

Answer : सरकारी कागजों, नोटों, सिक्कों व मोहरों पर

Q.22 : राष्ट्रीय गान जन-गण-मन-----को किसने लिखा था ?

Answer : रवीन्द्रनाथ टैगोर ने

Q.23 : राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसम्बर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था ?

Answer : कलकत्ता अधिवेशन

Q.24 : राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में किस पत्रिका 'भारत विधाता' शीर्षक से हुआ था ?

Answer : तत्व बोधिनी

Q.25 : राष्ट्रीय गान को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया ?

Answer : 24 जनवरी, 1950 को

Q.26 : राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है ?

Answer : 52 सैकेंड

Q.27 : राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम----- को किस बांगला साहित्यकार ने लिखा था ?

Answer : बंकिम चंद्र चटर्जी ने

Q.28 : राष्ट्रीय गीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया था ?

Answer : आनंद मठ

Q.29 : राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया गया था ?

Answer : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में

Q.30 : राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया ?

Answer : 24 जनवरी, 1950 को

Q.31 : राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे ?

Answer : पंडित ओकारनाथ ठाकुर

Q.32 : राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था ?

Answer :श्री अरविंदो

Q.33 : भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत् पर आधारित है ?

Answer :शक संवत्

Q.34 : राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन – सा होता है ?

Answer :चैत्र

Q.35 : राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था ?

Answer :22 मार्च, 1957 (शक संवत् 1879)

Q.36 : राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष कितने दिन का होता है ?

Answer :365 दिन

Q.37 : चैत्र सामान्य वर्ष में सामान्यतः 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में कब पड़ता है ?

Answer :21 मार्च

Q.38 : राष्ट्रीय कैलेंडर में कितने महीने होते हैं ?

Answer :12 महीने (चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाण, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन)

Q.39 : भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर में कितने वर्ष पीछे है ?

Answer :78 वर्ष पीछे